

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 334]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 8 अगस्त 2016—श्रावण 17, शक 1938

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 अगस्त 2016

क्र. बी-8-5-2016-चौदह-2.—भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण, मंत्रालय, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के पत्र क्र. 13015-03-2016-क्रेडिट II, दिनांक 23 फरवरी 2016 द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत वर्ष 2016-17 मौसम खरीफ एवं रबी के लिये अधिसूचना क्र. 189, दिनांक 23 अप्रैल 2016 जारी की गई है. जारी अधिसूचना में मौसम खरीफ 2016 के लिये संलग्न सूची अनुसार पटवारी हल्का स्तर पर अधिसूचित फसलों की जिला सीधी, अशोकनगर, श्योपुरकलां, होशंगाबाद एवं विदिशा के लिये संशोधित अधिसूचना जारी की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार, पटवारी हल्कों की सूची  
मौसम—खरीफ, वर्ष 2016-2017

जिला	तहसील	रा.नि.मं. का नाम	पटवारी हल्का नं.	पटवारी मुख्यालय का नाम	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफलवाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची							
					धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
सीधी	कुसमी	कुसमी	00039	भुड़माड	-	धान असिंचित	-	-	-	-		
		पौड़ी	00004	खाखर	-	धान असिंचित	-	-	-	-		
	गोपदबना	वृत		00006	पिपराही	-	धान असिंचित	-	-	-	-	
				00002	रामगढ़	-	धान असिंचित	-	-	-	-	
				00004	झगरहा	-	धान असिंचित	-	-	-	-	
				00012	बारी	-	धान असिंचित	-	-	-	-	
				00015	खाम्ह	-	धान असिंचित	-	-	-	-	
				00016	सरेठी	-	धान असिंचित	-	-	-	-	
				00030	गांधीग्राम	-	धान असिंचित	-	-	-	-	
				00031	कठास	-	धान असिंचित	-	-	-	-	
				00033	कठौली	-	धान असिंचित	-	-	-	-	
				सीधी गिर्द प्रथम	00063	सतनरा पवाई	-	धान असिंचित	-	-	-	-
				00066	खैरही	-	धान असिंचित	-	-	-	-	
				00073	गाडा बबन सिंह	-	धान असिंचित	-	-	-	-	
				00084	उपनी	-	धान असिंचित	-	-	-	-	
				00086	जमुनिहा कला	-	धान असिंचित	-	-	-	-	
				00087	बमुरी	-	धान असिंचित	-	-	-	-	
				00089	भाठा	-	धान असिंचित	-	-	-	मक्का	-
				00094	सारो कला	-	धान असिंचित	-	-	-	-	-
			चुरहट	चुरहट		00001	बड़खरा 734	धान सिंचित	-	-	तुअर	-
	00003	मोहनिया			धान सिंचित	-	-	-	-	-		
	00007	चदैनिया			धान सिंचित	-	-	-	-	-		
	00008	हर्दिहा पवाई			धान सिंचित	-	-	-	-	-		
	00010	बड़ोखर			धान सिंचित	-	-	-	-	-		
	00017	डढ़िया			धानसिंचित	-	-	-	-	-		
	00024	शिवपुरवा			धान सिंचित	-	-	-	-	-		
	00028	चिलरीकला			धान सिंचित	-	-	-	-	-		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			00030	बरिगवा	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			00031	लहिया	धान सिंचित	धान	-	-	-	-
					असिंचित					
			00035	हिनौती नं. 1	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			00037	पटौडहा	-	धान असिंचित	-	-	-	-
			00041	कोल्हूडीह	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			00042	बढ़ौना	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			00043	कोटदरखुर्द	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			00044	सलैया	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			00034	पटपरा	धान सिंचित	-	-	-	-	-
बहरी	देवगवां		00002	सरदा	-	धान असिंचित	-	-	-	-
			00006	शिवपुर	-	धान असिंचित	-	तुअर	-	-
			00007	अमरपुर	-	धान असिंचित	-	-	-	-
			00008	दुअरा कला	-	धान असिंचित	-	-	-	-
			00009	खोरी	-	धान असिंचित	-	-	-	-
			00011	गजरही उनमुक्त	-	धान असिंचित	-	-	-	-
			00013	बेलहा	-	धान असिंचित	-	-	-	-
			00014	सैरपुर	-	धान असिंचित	-	-	-	-
			00016	खैरा	-	धान असिंचित	-	-	-	-
			00017	कुचवाही	-	धान असिंचित	-	-	-	-
			00018	जनकपुर	-	धान असिंचित	-	-	-	-
			00019	पोखडौर	-	धान असिंचित	-	-	-	-
			00020	तेदुहा	-	धान असिंचित	-	तुअर	-	-
			00022	भितरी	-	धान असिंचित	-	-	-	-
			00023	खोचीपुर	-	धान असिंचित	-	-	मक्का	-
			00024	समरदह	-	धान असिंचित	-	-	-	-
			00025	पोखरा	-	धान असिंचित	-	-	मक्का	-
			00026	पोडी	-	धान असिंचित	-	-	मक्का	-
			00030	पैगमा आबाद	-	धान असिंचित	-	-	-	-
			00033	गोडाही	-	धान असिंचित	-	-	-	-
			00034	हटवा	-	धान असिंचित	-	-	-	-
			00035	डढिया	-	धान असिंचित	-	-	-	-
			00036	लौआ	-	धान असिंचित	-	-	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			00038	पतुलखी	-	धान असिंचित	-	-	-	-
			00039	जमुआर	-	धान असिंचित	-	-	-	-
			00041	कुनझुन कला	-	धान असिंचित	-	-	मक्का	-
			00042	नकझर कला	-	धान असिंचित	-	-	-	-
			00043	नकझर खुर्द	-	धान असिंचित	-	तुअर	मक्का	-
			00044	खुटेली	-	धान असिंचित	-	-	मक्का	-
			00047	बरबंधा	-	धान असिंचित	-	-	-	-
			00048	दुअरा	-	धान असिंचित	-	-	-	-
			00052	चदवाही	-	धान असिंचित	-	-	-	-
			00053	तरका	-	-	-	-	मक्का	-
			00029	पडरिया	-	धान असिंचित	-	तुअर	-	-
मंझौली	मझौली		00020	खमचौरा	-	धान असिंचित	-	-	-	-
			00031	चदोहीडोल	-	धान असिंचित	-	-	-	-
		मडवास	00052	नदहा	-	धान असिंचित	-	-	-	-
रामपुरनै	रामपुर		00001	पटना	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			00007	कपुरी कोठार	-	धान असिंचित	-	-	-	-
			00020	अगडाल	-	धान असिंचित	-	-	-	-
			00025	धटोखर	-	धान असिंचित	-	-	-	-
		हनुमानगढ़	00060	खडडी कला	-	धान असिंचित	-	-	-	-
			00063	कोनिया	-	धान असिंचित	-	-	-	-
			00064	जमुनिहा नं. 2	-	धान असिंचित	-	-	-	-
			00069	अहिरान टोला	-	धान असिंचित	-	-	-	-
सिंहाबल	अमिलिया		00002	मुर्दाडीह	-	धान असिंचित	-	-	-	-
			00006	गहिरा	-	धान असिंचित	-	-	-	-
			00007	धोधरा	-	धान असिंचित	-	-	-	-
			00015	सहजी	-	धान असिंचित	-	-	-	-
			00022	बड़ागांव	-	धान असिंचित	-	-	-	-
			00034	पमरिया	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			00037	बल्हया	-	धान असिंचित	-	-	-	-
			00038	चितवरिया	-	धान असिंचित	-	-	-	-
			00039	बांकी	-	धान असिंचित	-	-	-	-
			00041	सवैचा	-	धान असिंचित	-	-	-	-
			00043	दुधमनिया	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			00045	बधोर	धान सिंचित	-	-	तुअर	-	-

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार, पटवारी हल्कों की सूची

मौसम—खरीफ, वर्ष 2016-2017

जिला	तहसील	रा.नि.मं. का नाम	पटवारी हल्का नं.	पटवारी मुख्यालय का नाम	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफलवाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची					
					धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
अशोकनगर	ईशागढ़	सारसखेड़ी	41	पचताना	-	-	सोयाबीन	-	-	-
श्यापुरवा	कराहल	गोरस-2	15	बंधाली	धान सिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
होशंगाबाद	बनखेड़ी	चांदोन	23	महगवां	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			21	गोंदलवाड़ा	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			52	पीपरपानी	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			44	बिछुआ	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			57	घड़ावपड़ाव	धान सिंचित	-	-	-	-	-
विदिशा	विदिशा	सियलपुर 05	16	पुरैनिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			86	कूंजा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			87	महादेवखेड़ी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			89	सोना	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			88	सियलपुर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			90	घटवार	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			91	सुल्तानपुर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			92	सफदलपुर ताल	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			93	उनारसीताल	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			94	घोसूआताल	-	-	सोयाबीन	-	-	-